



31st July, 2025

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (E)

Mumbai- 400 051

NSE Symbol: HAVELLS

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street Mumbai- 400 001

Scrip Code : 517354

Sub: Newspaper Publication for the Shareholders of the Company

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the Newspaper clippings of the publication titled "(A) SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES & (B) SPECIAL DRIVE FOR UPDATION OF KYC & OTHER RELATED UPDATIONS TO PREVENT TRANSFER OF UNPAID/ UNCLAIMED DIVIDENDS TO IEPF" published by the Company today in the Economic Times (English) and Jansatta (Hindi) editions of 31st July, 2025.

The above is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully, for **Havells India Limited**

(Sanjay Kumar Gupta) Company Secretary

Encl: As above














Old Levy Returns: Maha Trusts may be Asked to Pay Up

With HC lifting the 2009 stay, state can now issue fresh orders to collect 2-5% of donations—possibly including retroactive dues

Sugata Ghosh
Mumbai: Losing along legal tussle,
lakhs of temple and religious trusts,
foundations, and various public
charitable organisations in Maharashira will have to shell out a bit of
the total donations they receive to
the state government
the state government
to direct public charitable trusts or
societies to contribute up
then, all charitable trusts — barivities such as education, water conservation, and welfare of backward
classes, etc — had to contribute up
to 5% of their gross receipts or coljes such as communication of the desired packwaru classes, etc.— had to contribute up 5% of their gross receipts or collections. The state had fixed the rate at 2% since 4 pril 12% since 5 pril



vely (since 2009). stingly, while the court has

cerns over the potential for arbitrary administrative decision-making. This possibility appears to have been indirectly acknowledged by the Court, which has explicitly stated that any fresh order issued by the State would be open to legal challenge, should the affected trusts feel aggrieved," said Paras Savla, particulation of the Charles of the Court of aggrieved," said Paras Savla ner at the CA firm, KPB & A

6 of donations—possibly in ally the presuling legal framework does not mandate a public consulta-tion process for such levies, nor has the Court evaluated whether the structure of the levy adheres to the principles of reasonableness and non-arbitrariness. Given these gaps, there remains a real risk of the very same issues that led to the ori ginal round of litigation resurfa-cing in future, said Swia. The 2009 petitioners pointing out that the sta-tegovernment was "unnecessarily and excessively collecting contribu-tions from every public trust" and the bulk of the amount were lying untilised.

However, in the order dated, July 16, 2005, the court said that the situa-

However, in the order dated July 16, 2025, the court is aid that the situation where no contributions are recovered from public trusts "cannot continue" forever. "The interim order dated 25 September 2009 was passed on account of the situation which weighted at that time when expassed on account of the situation which existed at that time when excessive funds were available with the office of the Charity Commissioner. Since (a) period of more than 16 years has passed since imposing

embargo on collection of contribu-tions, in our view liberty needs to be given to the state government to n to the state government to re-ss the situation..," said the Co-

Stafe's Power Not QuestionED
Section 58 of the Maharashtra Public Trusts (MPT) Act empowers the state to require public trusts to contribute an amount not exceeding 5% of their gross annual collections. Pollowing the vacation of the stay, the state can now issue a MPT Act for Trusts to resume contributions from public trusts. The court has said that in no way the state's powers to levy contributions is under question.

the spowers to levy contributions as under question. There are more than 8 lakh public charitable trusts in Maharashtra. Public charitable trusts are exemption paying income tax on the foundation subject to the condition did to the spowers of the spowers of spending the year with the provision of spending the unused amount of spending the tunused amount when the next five years. Donors to

Rapid GCC Growth may be Hurting IT **Outsourcing Industry**

Bengaluru: Recent exponential growth of global capability centres (GCC) in India may have ome at the expense of the people det cent outside the control of global capability centres (GCC) in India may have one state through the expense of the people det cent outside the control of global capability centres (GCC) in India in the expense of the people det cent outside the control of global capability centres (GCC) in India is having an impact of the expense of the people det cent outside the control of global capability centres (GCC) in India is having an impact of the control of growing the global capability centres (GCC) in India is having an impact of the expense of the people of growing the growing in the growing in

TELECOM PULSE

Telcos Add Users in Metros, Lose in Smaller Cities in June: Report

Our Bureau

New Delhi: The rise in active wireless subscribers in June, following strong gains in May was led by additions in metro and A circles. comprisins in May was led by additions in metro and A circles. comprising the country's larger clites, said a report.

In lilion active usubscribers in June, following strong gains in May was led by additions in metro and A circles. The industry added 2.7 million active subscribers in June metros have been offered by additions in metro and A circles. The industry added 2.7 million active subscriber additions on the critica and towns, according to the report by brokerage Jefferies of mobile users regularly using and A circles (2.4 million), with a count for around 45% of the sector's subscriber hase; however, B circles (0.5 million) and circles

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE

SMART REBOUND Smartphone Sales Up 18% by Value in Jun Otr

New Delhi: The India smartphone market grew 85 on-year by volume and 18+5 by value in the second quarter of 2025, making as solid rebound from a muted first quarter, Counters and Wednesday. The growth was driven by new launches and summer season sales backed by an inprovenie environment ince environment ince environment that boosted consumer sentiment, itsaid.

FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryai INDIAN RAILWAYS GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

Singh. He added that tax relief measures introduced earlier in the year increased disposable incomes and savings, creating a favourable setup for discretionary purchases. Counterpoint also said the stratriphone market reached in cond-quarter value, led by Samsung, Apple and Vivo.

w Delhi: The India smartphone

shipments grew
7% on-year to 39
million units in Q2, while IDC's
preliminary data saw an estimated 34-36 million units shipped, with shipments growing
3-4% on-year.

54% on year:

S44% on year

Counterpoint said top-ranked Chinese brand Vivo's volume market share increased from 17% in Q2 2024 to 20% in Q2 2025, while the share of second-ranked Samsung from Korea fell from 17% to 16%.

Chinese brand Oppo displaced peer Xiaomi to take the third spot with a 13% share, according to the research firm.

THE ECONOMIC TIMES

Be the Top 1% in your organisation Who Uses AI To Outthink, Outpace, And Outperform.

L/SGR/Mktg/E-Auction/25-26/874 Date : 29.01
NOTICE REGARDING SALE OF "M-Sand" THROUGH
SPOT E-AUCTION FOR THE MONTH OF AUGUST 2025 SPOT E-AUCTION FOR THE MONTH OF AUGUST 2025 hem Coalfields Limited, Singrauli, MP proposes sale of factured Sand "M-Sand" through Spot e-Auction. For detailed on "96.68.2025" for the month of "August 2.0225" kindly NCL website i.e. www.nciclin. Mrs MSTC Ltd. website i.e. www.nciclin. Mrs MSTC Ltd. website i.e. metaccommercacom. notice board of Marketing & Sales trenet, NCL, Singrauli, Mr? General Manager (M&S), NCL, Singrauli General Manager (M&S), NCL, Singrauli

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

 PLOT NO.
 PLOT SIZE
 E-AUCTION DATE
 LAST DATE OF APPLICATION DATE

 NOT NO. DF/183, 184, 185 IN ACTION 2.04
 2.04
 04.09.2025
 29.08.02.025

 ABEA ID OF NEW TOWN, KOLKATA
 Acres
 04.09.2025
 14:00 hrs.



NOTICE TO SHAREHOLDERS sfer of equity shares to investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. Insulant to provisions of the investor Education and Pr it, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended fro

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नानौता (सहारनपुर) निविदा सूचना समिति द्वारा पेराई सत्र 2005-26 नेन में

HAVELLS INDIA LIMITED

Regd. Off.: 304, 9th Floor, Surya Kiran Building, K & Marg, Comaught Place, New Dehi - 110 001 Corporate Off.: QRS Clowers; 2D, Sector - 128, Expressway, Nolda (U.P.) - 201 304 Tel. # 0120-333100, Year # 0120-33200, web: www.havelis.com Email: investors@havelis.com, CIN - L319000L1983PLC016304

(A) SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

(B) SPECIAL DRIVE FOR UPDATION OF KYC & OTHER RELATED UPDATIONS TO PREVENT TRANSFER OF UNPADIOUNCAIMED DUTIDENS TO THE SEE A TEMPOLIUNCAIMED DUTIDENS TO THE SEE OF UNPADIOUNCAIMED LAY 2005 ON THE SEE OF UPDATED A SPECIAL Note: Shares re-lodged during this period will be transferred only in demat mode Please ensure you have an active demat account. Please provide your Client Master List (CML) along with transfer documents.

Master List (CML) along with transfer documents.

Shareholdes are also informed and the investor's Education and Protection Fund Authority (EFFA, whe is later classed of 20,42,025, has requested companies and control of the companies of the com

defibilition (mems multip coet).

The Company has extent reminder lettlers to the relevant shareholders urging them to update them KYC and bank decides to receive devidends electroscally as with Noule. Ape at 15th gradients, from 1 *Agal (2002, decidends for statement between them to the company of the Company or its KTA to receive dividend payment. Once updated, all the unclaimed decided price Company with the paid to the shareholders.

For Havells India Limited Sd/-Sanjay Kumar Gupta Company Secretary Noida, July 30, 2025





AI FOR

PRACTICAL AI SKILLS YOU'LL GAIN

- Become a Marketing Powerhouse with Al-Driven Campaigns
- Automate Repetitive Workflows to Radically Boost Productivity
- Slash Research and Content Creation Time Dramatically
- Produce Professional Videos and AI Avatars In-House

WHAT OUR PARTICIPANTS SAY

- 92% Rated Previous Batches "Extremely Valuable"
- 1in 3 Applied Al at Work within 2 Weeks

GET ₹5000 EARLY BIRD OFFER. BOOK YOUR SEAT TODAY!

WhatsApp: +91 95605 00838

Email: AlMasterclass@economictimes.com

Website: https://ecoti.in/6tU3Pb



SCAN TO REGISTER



[विनियम 33(2) देखें]

₹. 24,62,934.63

₹. 4,13,662.77

रु. 27,005.00

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नानौता (सहारनपुर) निविदा सूचना

मिल समिति द्वारा पैराई सत्र 2025-26 हेत् ई-टिण्डर के माध्यम से 1. Supply of New Rotary SS Wedge Bar Screen for 5000 TCD Plant 2- Supply, Erection & Commissioning of 1750 Kg/Charge Fully Automatic New Batch Type Centrifugal Machine for Curing of A-Messcuite 3- Supply of 1500/30" New Continuous Centrifugal Machine हेत् दिनाक 06.08.2025 को साथ 6:30 बजे तक री-इं-निविदाये आमंत्रित की जाएगी, जिसके लिए निविदा प्रपन्न रुपये 590.00 (कर सहित) तथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैकर देक / आर.टी.जी एस. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सहारनपुर के पक्ष में जमा कराना अनिवार्य है । यथा आवश्यक नमोशिएशान भी किया जाएगा। निविदा की नियम एवं शर्ते, ई-फॉर्म, धरोहर धनराशि आदि की विस्तारित जानकारी www.elender.up.nic.in तथा www.upsugarfed.org से डाउनलोड किये जा सकते है एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सरक्षित

BHARAT NIDHI LIMITED CIN No. U51396DL1942PLC000644 Regd. Office: 3/8, 2nd Floor, Asaf Ali Road, New Delhi 110002 E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com NOTICE is hereby given that the following Shareholder of the Company holding fully paid up equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost his Share Certificates and application has been made to the Company by his legal heir to issue duplicate share certificates: Father/ Husband's Name No. of Shares held Folio No. Prakash Chand Gupta Late Shri Bal Dev

Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice; else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation For Bharat Nidhi Limited Place: New Delhi Date: July 30, 2025 Company Secretary

ITI Asset Management Limited Investment Manager for ITI Mutual Fund

Registered Office: ITI House, 36, Dr. R. K. Shirodkar Marg, Parel, Mumbai - 400 012, Maharashtra

Toll Free No: 1800 266 9603 E : mfassist@itiorg.com

W:www.itiamc.com

ITI MUTUAL FUND

Long-term wealth creators

NOTICE CUM ADDENDUM No. 47/2025

Hosting of Annual Report and Abridged Annual Report of the Scheme(s) of ITI Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2025

CIN: U67100MH2008PLC177677

NOTICE is hereby given to the Unit Holders of the Scheme(s) of ITI Mutual Fund ("the Fund") that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/ CIR/2024/90 dated June 27, 2024, the Annual Report of the Schemes of ITI Mutual Fund and an abridged summary thereof for the Financial Year ended March 31, 2025 has been hosted on the website of the Fund www.itiamc.com and on AMFI's website www.amfiindia.com respectively.

Investors may accordingly view / download the reports from the website of the Fund.

A link of the Annual Report/Abridged Annual Report shall be sent via email to the Investors whose e-mail ids are registered with the Fund. Further, Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Annual Report or abridged summary thereof by writing to us at the email address mfassist@itiorg.com or calling on the toll free number 1800-266-9603 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of the Fund. Such copies shall be provided to the unit holders free of cost.

Further, Unit holders are encouraged to register their email id with us for periodic updates on emails.

For ITI Asset Management Limited

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

or entering into any

agreements with advertisers

or otherwise acting on an

advertisement in any

manner whatsoever.

(Investment Manager for ITI Mutual Fund) Place: Mumbai

Date: 30/07/2025 **Authorised Signatory**

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

A ICICI PRUDENTIAL** MUTUAL FUND

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: ICICI Prudential Mutual Fund Tower, Vakola, Santacruz East, Mumbai - 400 055; Tel: +91 22 6647 0200/2652 5000 Fax: +91 22 6666 6582/83,

Website: www.icicipruamc.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund) for hosting of Scheme wise Annual Report

NOTICE is hereby given that the Scheme Wise Annual Report (including audited financials) of the schemes of the Fund for the financial year ended March 31, 2025 have been hosted on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC) viz. www.icicipruamc.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com, in accordance with Regulation 54 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Clause 5.4 of the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June 27, 2024.

Investors may accordingly view/download the results from the website of the AMC. Investors can also request for the physical copy of Annual Report through any of the following modes:

- 1. Give a call at our Contact Centre on Toll Free number: 1800 222 999 and 1800 200 6666 between 8 am to 8 pm, Monday to Saturday and 9 am to 7 pm on Sunday
- 2. Send an email to enquiry@icicipruamc.com
- 3. Submit a letter at any of the AMC Offices or our CAMS Investor Service Centers, details of which are available on the AMC website viz. www.icicipruamc.com.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place: Mumbai Date: July 30, 2025 No. 012/07/2025

Authorised Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit <u>www.icicipruamc.com</u>

Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.icicipruamc.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

(पहले जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

- मुख्य उपलब्धियां Q1 FY 2025-26
- राजस्थान और गुजरात राज्यों में निजी TBCB डेवलपर्स से 765 केवी ट्रांसफार्मर और रिएक्टर की आपूर्ति के लिए कई ऑर्डर
- मध्य प्रदेश राज्य में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से 420 केवी GIS की आपूर्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त किया।
- महाराष्ट्र राज्य में एक निजी EPC प्लेयर से 420 / 245 केवी GIS की आपूर्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त किया। EPC प्लेयरों से 765 केवी AIS उपकरण और ग्रिड ऑटोमेशन पैकेज की आपूर्ति के लिए कई ऑर्डर प्राप्त किए।
- यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका को AIS/GIS उपकरण के निर्यात के लिए कई ऑर्डर प्राप्त किए।

चालू की गई मुख्य परियोजनाए Q1 FY 2025-26

- कोटरा में पीजीसीआईएल के लिए 765 केवी AIS और 400 केवी GIS बे को सफलतापूर्वक चालू किया गया तथा 500 MVA परिवर्तन समता जोडी गई।
- 765 केवी GIS बे को सफलतापूर्वक चाल किया गया और खावड़ा में अदानी के लिए 1500 MVA आईसीटी और
- विभिन्न स्थलों जैसे दूसन जवाहरपुर, पीजीसीआईएल खावडा, आदित्य एल्युमिनियम लापंगा, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी पुरुलिया साइट और इंडिग्रिंड कादरपुर साइट पर 2,700 MVA को सफलतापूर्वक चाल किया गया।

30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

₹ मिलियन, प्रति शेयर डाटा छोडकर समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष विवरण 31.03.2025 30.06.2025 31.03.2025 30.06.2024 संख्या (अलेखापरीकित) (अलेखापरीकित) (कलेखापरीक्षित) (लेखापरीवित) संचालन से कुल आय 13,464.3 11,736.5 9,701.4 43,548.9 अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पूर्व) 3,900.1 2,561.2 1,799.1 8,196.7 कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद) 3,900.1 2,561.2 1,799.1 8,196.7 कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद) 1,864.9 6,083.3 2,912.0 1,345.4 अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) के लिए लाम हानि मिलाकर 5,813.7 1,629.6 1,615.2 1,357.9 इक्विटी शेयर पूंजी 512.1 512.1 512.1 512.1 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलना पत्र में दर्शाई गई है 17,219.0 अवधि के लिए मूल और तनुकृत इपीएस (प्रत्येक रु 2 का अंकित मूल्य) (रुपयों में) 5.25 11.37 7.28 23.76

टिप्पणी:-

क) उपर्युक्त, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए प्रस्तुत किए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट https://www.gevernova.com/regions/asia/in/gevernova-td-india तथा स्टाक एक्सवेंज की वेबसाइट www.bseindia.com औरwww.nseindia.com पर उपलब्ध है ।

(not-annualised)

(not-annualised)

ख) उपर्युक्त अलेखापरीक्षित परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समिक्षा की गई है तथा उसे दिनांक 29 जुलाई, 2025 को आयोजित निदेशक गंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया। 30 जून 2025 को समाप्त विमाही के लिए अलेखापरीक्षित परिणाम कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों

स्थान : नोएडा दिनांकः २९ जुलाई २०२५



जीई वर्नों वा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए (पहले जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) (संदीप जंजारिया) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ढीआईएनः 08905291

CIN - L31102DL1957PLC193993

पंजीकृत कार्यालयः ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 फोन नः ११ ११ ४१६१०६६०, वेबसाईटः https://www.gevernova.com/regions/asia/in/gevernova-td-india

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड

रिज, ऑफिस: 904, 9वीं मंजिल, सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेंस, नई दिल्ली-110 001 कॉर्पोरेट ऑफिसः क्यूआरजी टॉवर्स, 2डी, सेक्टर-126, एक्सप्रेसवे, नोएडा-201 304 (उत्तर प्रदेश)

फोनः # 0120-3331000, फैक्सः # 0120-3332000, वेबः www.havells.com ई-- गेल: investors@havells.com, CIN-L31900DL1983PLC016304

> (अ) भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

(a) KYC और अन्य संबंधित अपडेट के लिए विशेष अभियान ताकि अनपेड/बिना क्लेम किए गए लाभांशों को आईईपीएफ में स्थानांतरित होने से रोका जा सके

- (अ) शेयरधारक ध्यान दें कि 2 जुलाई, 2025 के SEBI परिपत्र के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से पहले प्रस्तुत किए गए, लेकिन कमियों के कारण अस्वीकृत, वापस किए गए या अनुपयोगी हरतांतरण विलेखों को पुन: प्रस्तुत करने के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खुली हैं। पात्र शेयरधारक जो पिछली समय सीमा (३१ मार्च, २०२१) से चूक गए हैं, उन्हें इस समय सीमा के भीतर MUFG Intime India Private Limited (कंपनी का RTA) को मूल, संशोधित हस्तांतरण दस्तावेज जमा करने चाहिए।
 - नोटः इस अवधि के दौरान पनः जमा किए गए शेयर केवल डीमैट मोड में ही इस्तांतरित किए जाएँगे। कृपया सुनिष्टिचत करें कि आपके पास एक सक्रिय डीमैट खाता है। कृपया हस्तांतरण दरतावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (CML) भी प्रदान करें।
- (ब) शेयरधारकों को यह भी सचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने 16 जुलाई, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक "सक्षम निवेशक" नामक 100-दिवसीय अभियान शुरू करें, जिसका लक्ष्य उन शेयरघारकों को लक्षित करना है जिनके लाभांश का दावा नहीं किया गया है। इसके जवाब में, कंपनी अपने शेयरधारकों को उनके केवाईसी विवरणों को अपबेट करने के बाद वितीय वर्ष 2017-18 के लिए अनपेंड लामांश खाते से उनके बिना क्लेम लाभांश का दावा करने में सहायता करने के लिए यह विशेष अभियान चला रही है।

अवैतनिक या दावा न किए गए लामांश से संबंधित किसी भी समस्या के लिए या अपने KYC को अपडेट करने के लिए, आप कंपनी या उसके RTA से कार्य समय (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) किसी भी समय 0120-3332937 / 39 / 40 / 42 पर कॉल करके. या investors@havells.com पर ईमेल करके संपर्क कर सकते हैं। आप कंपनी या आरटीए, MUFG इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय, नोबल हाइट्स, पहली मजिल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058 पर व्यक्तिगत रूप से भी जा सकते हैं। आप आरटीए को 011-49411000 पर कॉल भी कर सकते हैं या delhi@in.mpms.mufg.com पर ईमेल भी कर सकते हैं।

कंपनी ने संबंधित शैयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लामांश प्राप्त करने के लिए अपने केवाईसी और बैंक विवरण अपडेट करने का आग्रह करते हुए रिमाइंडर पत्र भेजे हैं। नोट: सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से, भौतिक शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केंवल इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से किया जाएगा। पात्र शेयरधारकों को लामांश भगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी या उसके RTA को अपना KYC विवरण – PAN, संपर्क

जानकारी (पिन और मोबाइल नंबर सहित डाक पता), बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर आदि – प्रदान करना होगा। अपडेट होने के बाद, कंपनी द्वारा पूर्व में घोषित सभी दावा न किए गए लागांश का भुगतान शेयरधारकों को इलेक्ट्रोंनिक मध्यम से किया जाएगा।

कृते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड हस्ता/-संजय कुमार गुप्ता कंपनी सचिव नोएडा, 30 जुलाई, 2025



वसूली अधिकारी का कार्यालय- ।/॥ ऋण वसुली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी

सुवर्णा भवन, मकान नंबर 12, न्यू टाउन पथ, हनुमान मंदिर के पास, जी.एस. रोड, उलुबारी, गुवाहाटी-781007 (असम) माँग सुचना

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना। आरसी/267/2024

भारतीय स्टेट बैंक – बनाम –

श्री शांतन राय

(सीडी 1) श्री शांतनु राय, पुत्र हरीश चंद्र राय, मकान संख्या 807, परमा अकादमी, रामघाट, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224123, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224123। (सीडी 2) श्री हरीश चंद्र राय, पुत्र नारायण राय, जीजी 36 टाइप, गोलघर पोर्ट, ब्लेयर अंडमान-

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण गुवाहाटी द्वारा ओए/88/2023 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, 24.62.934.63 रुपये (चौबीस लाख बासठ हजार नौ सौ चौंतीस रुपये और तिरेसठ पैसे मात्र) की राशि, बकाया और भविष्य के ब्याज सहित दिनांक 19.02.2023 से वसूली तक 8.35% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज और 27,005/- रुपये (सत्ताईस हजार पांच रुपये मात्र) की लागत आपके विरुद्ध देय हो गई है (संयुक्त रूप से और अलग-अलग/पूरी तरह/सीमित रूप से)।

. वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय राशिः 2. 01.09.2018 से 01.06.2025 तक 14.15% की दर से ब्याज

कुल:- रु. 29,03,602.40 2. आपको एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भगतान करें, अन्यथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करें।

4. आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप आगे की कार्यवाही के लिए 19.08.2025 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। 5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित का भूगतान भी करना होगाः

(क) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय

(ख) इस नोटिस और वारंटों की तामील और अन्य प्रक्रियाओं तथा देय राशि की वसुली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में किए गए सभी लागत, प्रभार और व्यय। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मृहर से, इस दिनांक को दिया गयाः 04.06.2025

> वसूली अधिकारी ऋण वसुली न्यायाधिकरण, गुवाहाटी



quant Mutual Fund

Registered Office: 6th Floor, Sea Breeze Building, A. M. Road, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. Tel.: +91 22 6295 5000 E-mail: help.investor@quant.in Website: www.quantmutual.com

Hosting of Annual Report and Abridged Annual Report of the Schemes of quant Mutual Fund

NOTICE is hereby given that in accordance with Regulation 54 and 56 of Securities & Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June 27, 2024, the Scheme Annual Report and Abridged Annual Report ("the Annual Reports") of quant Mutual Fund for the period ended 31st March, 2025 have been hosted on the website of quant Mutual Fund viz. www.quantmutual.com and on the website of Association of Mutual Funds in India viz. www.amfiindia.com. Investors can access / download the Annual Reports from the above-mentioned websites. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the Scheme Annual Report or Abridged summary thereof by any of the following modes at free of cost:

- 1. Email: help.investor@quant.in;
- 2. Call on: 022-6295 5000:
- Letter: Write a request letter at the Registered Office of the AMC or any of the Investor Service Centres of KFin Technologies Limited, list available at https://quantmutual.com/about-us/contact-us

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

For quant Money Managers Limited Place : Mumbai **Authorised Signatory** Date: July 31, 2025



टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एफ -26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 सी.आई.एन: L92200DL1999PLC103001 वेबसाइट: www.aajtak.in, ईमेल: investors@aajtak.com

फोन: 0120-4908600, फैक्स: 0120-4325028

26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागु होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवें प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र ("एमसीएँ परिपत्र") 09/2024 (दिनांकित 19 सितम्बर 2024) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 के अनुपालन में टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम बैठक ("ऐजीएम") गुरुवार 18 सितम्बर 2025 को 03:30 बजें अपराह वीडियों कॉन्फरेंस (वीसी)/ ओएवीएम के माध्यम से एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना ऐजीएम की सूचना में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु, आयोजित की जाएगी।

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु ऐजीएम की सूचना तथा एकिकृत वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, कंपनी के सभी सदस्यों, जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपाजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ 18 जुलाई 2025 तक पंजीकृत है, को भेजी जाएगी। कृपया ध्यान दे कि एमसीए परिपंत्र तथा सेबी परिपंत्र के हवाले से सदस्यों को 26वीं ऐजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकर्ता को समाप्त कर दिया गया है। यह सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://aajtak.in/investor/ तथा स्टॉक एक्सचेंजो, अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (ओं) www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः एवं हमारे डिपाजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडील) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर एवं हमारे आरटीए की वेबसाइट https://www.mcsregistrars.com/ पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("ई-वोटिंग ") एनएसडील द्वारा प्रदान की जाएगी तथा उसकी विस्तृत प्रक्रिया ऐजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। रिमोट ई -वोटिंग की अवधि 15 सितम्बर 2025 (09:00 प्रातः) से आरम्भ होगी तथा 17 सितम्बर 2025 (05:00 सोंयः) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो 11 सितम्बर 2025 की कट ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज़्ड तौर पर शेयर रखते है, रिमोट ई- वोटिंग द्वारा या ऐजीम के समय ई - वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु संगणित किया जायेगा।

वे सदस्य, जिनके ई-मेल पते कंपनी / उनके सम्बंधित डिपाजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है की वे जल्द से अपनी ई-मेल को पंजीकृत करें। वे सदस्य, जो जो भौतिक रूप में शेयरों को धारण कर रहे है और उनका ई-मेल पता आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, से अनुरोध है कि वे अपना विवरण फ़ार्म ISR-1 के साथ उपयुक्त दस्तावेज, कंपनी के आरटीए, MCS Share Transfer Agent Limited, helpdesk@mcsregistrars.com को भेजकर अपना ई-मेल पता शीघ्र पंजीकृत कराएं। डीमैट तौर पर शेयरों को रखने वाले सदस्य अपने डिपाजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता अद्यतन कर सकते हैं।

ऐजीएम की सूचना में उस प्रक्रिया के बारे में निर्देश शामिल होंगे, जिस प्रकार शेयर धारक रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अथवा ऐजीएम के समय ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं और वी सी के माध्यम से ऐजीएम में शामिल हो।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश हेतु शेयरधारको की योग्यता का निर्धारण करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि 11 सितम्बर, 2025 होगी। वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगी तथा 1 अप्रैल 2020 के प्रभाव से कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धोरित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्त्रोत से कर ("टीडीएस") की कटौती करना वांछित है. विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित दरों के लिए, शून्य / अधिमान टीडीएस की शर्तों एवं सम्बद्ध विवरण / आवश्यक दस्तावेज हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में आईटी अधिनियम तथा 26वीं ऐजीम की सूचना संदर्भित करे। सामान्य तौर पर, टीडीएस की आवशयक्ताओं के अनुपालन को सक्षम करने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईटी अधिनियम के अनुसार, अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी अपने डिपॉजिटरी के साथ, और यदि शेँयर भौतिक रूप में हैं तो ऑरटीए को helpdesk@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर, पूरा करे और / या अद्यतन करें।

01 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश का भुगतान करने के सेबी के आदेश के मद्देनज़र, सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश की समय पर प्राप्ति हेतु आरटीए (भौतिक शेयरों के मामले में) / डिपाजिटरी प्रतिभागी (डीमैट शेयरों के मामले में) के साथ बैंक खाता विवरण सहित अपने केवाईसी को यदि पहले अद्यंतन नहीं किया हो तो तुरंत अपडेट कर लें।

> कृते टी.वी टुडे नेटवर्क लिमिटेड हस्ताक्षर आशीष सभरवाल समूह प्रमुख सेक्रेटेरयल एवं कम्पनी सचिव

> > सदस्यता सं. एफ४९९१

तिथि: 30 जुलाई 2025

स्थान: नोएडा

epaper.jansatta.com